

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया का 102 स्थापना दिवस समारोह कल से शुरू
- माननीय राज्य शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष सरकार 29 अक्टूबर, 2022 को मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि होंगे

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, NAAC द्वारा A⁺⁺ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 29 अक्टूबर, 2022 को अपना 102 स्थापना दिवस मनाएगा। विश्वविद्यालय स्थापना दिवस मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 29 अक्टूबर, 2022 को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. सुभाष सरकार, माननीय राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार होंगे। समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के डॉ. एम. ए. अंसारी सभागार में सुबह 11 बजे होगा।

29 अक्टूबर, 2022 को सांस्कृतिक संध्या में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री रामचंद्र जांगड़ा, सांसद, राज्यसभा और प्रो. असीम अली खान, महानिदेशक, सीसीआरयूएम, भारत सरकार, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।

विश्वविद्यालय का डॉ. जाकिर हुसैन सेंट्रल लाइब्रेरी 28 अक्टूबर, 2022 को डॉ.जाकिर हुसैन सेंट्रल लाइब्रेरी में 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया: इतिहास और स्वतंत्रता सेनानी' पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री प्रवेश वालिया, क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक मेसर्स बिलीव कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सुबह 11 बजे किया जाएगा। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर करेंगी।

एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया 28 अक्टूबर, 2022 को एक छात्र फिल्म समारोह 'एजेकेएमसीआरसी फिल्मोत्सव' का आयोजन करेगा, जहां केंद्र के छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक केंद्र के प्रीव्यू थियेटर में प्रदर्शित किया जाएगा।

प्रेमचंद अभिलेखागार और साहित्य केंद्र, जामिया, मुंशी प्रेमचंद के 'शतरंज के खिलाड़ी' के नाटकीय वाचन का आयोजन करेगा। एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया के पीजीडी एक्टिंग के छात्र 28 अक्टूबर, 2022 को सुबह 11:30 बजे से अल-बरुनी ब्लॉक, जामिया में होने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे।

जामिया एलुमनी कनेक्ट (JAC) (दिल्ली चैप्टर) भी 30 अक्टूबर, 2022 को ऑडिटोरियम, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। डॉ. हनीफ कुरैशी, पुलिस आयुक्त, पंचकुला, मुख्य अतिथि (राष्ट्रीय) होंगे और डॉ. उपेंद्र गिरि, अंतर्राष्ट्रीय सदस्य, जामिया एलुमनी कनेक्ट (कैलिफोर्निया, यूएसए) समारोह के मुख्य अतिथि (अंतर्राष्ट्रीय) होंगे।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया